

## महत्वपूर्ण एवं खास

**नेपाल के काठमांडू में भूकंप के झटके, बिहार के कई जिलों में भी हिली धरती; 5.5 की थी तीव्रता**

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेपाल के काठमांडू में रविवार की सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। काठमांडू से 147 किमी दक्षिण-पूर्व में इसका केंद्र था। नेपाल में भूकंप के कारण बिहार के कुछ जिलों में भी इसके झटके महसूस किए गए। राजधानी पटना समेत सहसा, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और मोतिहारी सहित कई जिलों में हल्के झटके महसूस किये गए। हालांकि कहीं से भी अभी तक जानमाल या किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

**श्रीगंगानगर में दुखद हादसा, खेत में पानी से भरी डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत**

श्रीगंगानगर (आरएनएस)। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर क्षेत्र में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूब जाने से आज पांच बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार क्षेत्र के उदासर पांचयड़ीएन गांव में एक खेत में बनी पानी की डिग्गी में ये बच्चे डूब गये जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि बसात के मौसम में खेतों में बनी डिग्गियां इस समय पानी से भरी हुई हैं और ये बच्चे डिग्गी में नहाने गये थे कि उसमें डूब गये। उन्होंने बताया कि इन बच्चों की उम्र दस-बारह साल की हैं और इनमें दो लड़कियां और तीन लड़के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि डिग्गी से पानी खाली कराया जा रहा है ताकि पूरी तरह तलाश जा सके कि कहीं और बच्चा तो नहीं डूब गया है। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया।

**अमेरिकी पुरुष से ऑनलाइन शादी कर पाएगी भारतीय महिला, हाई कोर्ट ने दी मंजूरी**

चेन्नई (आरएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट की मुद्दे पीठ ने ऑनलाइन शादी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तमिलनाडु की महिला भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक से डिजिटल माध्यम से शादी करने को तैयार है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि विवाह का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 12 और 13 का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि इस अधिकार को प्रभावी बनाया जा सके। याचिका में याचिकाकर्ता वामसी सुदर्शिन पीएन ने प्रतिवादी उप-रजिस्ट्रार, कन्याकुमारी को राहुल एल. मधु के साथ अपनी शादी को ऑनलाइन संपन्न करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। अदालत ने कहा, अधिनियम की धारा 12 (2) में कहा गया है कि विवाह किसी भी रूप में किया जा सकता है जिसका दोनों पक्ष चयन कर सकते हैं। चूंकि कानून को प्रौद्योगिकी की रफ्तार के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, इसलिए यहां विवाह में शामिल पक्षों की पसंद कानूनी रूप से जरूरी है। उन्होंने अपील की कि शादी को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किया जाए और विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

**पाकिस्तान में फुटबॉल मैच विस्फोट में तीन लोग घायल**

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के तुरुब शहर में फुटबॉल मैच के दौरान हुए विस्फोट में कम से कम तीन लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बीती रात को केच जिले में स्थित तुर्बत के एमपोर्ट चौक इलाके के पास एक फुटबॉल स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच के दौरान शक्तिशाली विस्फोटक (आईईडी) धमाके में तीन लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर लोगों में दहशत है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। प्रांत के गृह मंत्री जिजा उल्लाह लांगी ने हमले की निंदा की और पुलिस को हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिए हैं।

**मोदी ने रजत पदक जीतने पर बिद्यारानी देवी को दी बधाई**

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर बिद्यारानी देवी को बधाई दी है। मोदी ने आज ट्वीट कर कहा, राष्ट्रमंडल खेल, बर्मिंघम में रजत पदक जीतने के लिए बिद्यारानी देवी को बधाई। यह उपलब्धि उनके दृढ़ता का प्रदर्शन है और इससे प्रत्येक भारतीय को बहुत प्रसन्न है। मैं उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

## गुजरात के 17 जिलों में फैला जानलेवा त्वचा रोग अब तक 1200 से अधिक पशुओं की मौत

ये जिले हैं प्रभावित

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के कुल 33 जिलों में से 17 में अब तक जानलेवा देलेदार त्वचा रोग से 1,200 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पशु मेलों पर प्रतिबंध लगाते हुए सर्वे, उपचार और टीकाकरण को तेज कर दिया है। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि वायरल बीमारी के कारण शनिवार तक 1,240 से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है और इससे बचाव के लिए 5.74 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वायरल संक्रमण राज्य के 33 में से 17 जिलों में फैल गया है और उनमें से ज्यादातर सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं।

उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर, बोटाड, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, बनासकांठा, पाटन, सूरत, अरावली और पंचमहल शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि तेजी से फैल रही इस वायरल बीमारी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 26 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर पशु मेलों और मवेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजकोट जिला प्रशासन द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अन्य राज्यों, जिलों, तालुकों और शहरों से मवेशियों की आवाजाही पर 21 अगस्त तक पशु व्यापार और



मेलों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने मृत मवेशियों के शवों को खुले में फेंकने पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस ने की किसानों के लिए मुआवजे की मांग

मंत्रों ने कहा कि प्रभावित जिलों के 1,746 गांवों में 50,328 प्रभावित

मवेशियों का इलाज किया गया है। हालांकि, इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर बीमारी के सटीक आंकड़े का खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया है और अपने मवेशियों को खोने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार,

रोग पर नियंत्रण और निगरानी के लिए प्रत्येक प्रभावित जिले में कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इन कमेटियों में स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के अध्यक्ष शामिल होंगे। डॉक्टरों की टीमों इलाज में जुटी

डॉक्टरों की टीमों इलाज में जुटी

पटेल ने कहा कि कम से कम 192 पशु चिकित्सा अधिकारी और 568 पशुधन निरीक्षक प्रभावित जिलों में गहन सर्वे, उपचार और टीकाकरण कार्य में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक 10 गांवों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन के साथ 298 आउटडोर पशु चिकित्सकों को इस उद्देश्य के लिए तैनात किया गया है।

कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका और बनासकांठा जिलों में सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से जुड़े 107 सदस्यों को युद्ध स्तर पर इलाज और टीकाकरण कार्य करने के लिए तैनात किया गया है। ये हैं बीमारी के लक्षण

देलेदार त्वचा रोग एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों, मक्खियों, जूँ तैया आदि या सीधे संपर्क, दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके मुख्य लक्षण पशुओं में सामान्य बुखार, आंखों और नाक से साव, अधिक लार, शरीर पर गांठ जैसे नरम छाले, दूध उत्पादन में कमी, खाने में कटिनाई है, जो कभी-कभी जानवरों में मृत्यु का कारण बन सकता है।

## हम चाहते हैं कश्मीर में 'हर घर तिरंगा' हो, पाक चाहता है 'हर घर मातम' हो : जम्मू-कश्मीर डीजीपी

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कहा कि जहां देश कश्मीर में 'हर घर तिरंगा' चाहता है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान यहां 'हर घर मातम' चाहता है। गान्धर्व जिले के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल (मणिगाम) में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए डीजीपी ने हर घर तिरंगा फहराने की पहल का समर्थन करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया। सिंह ने कहा, हम हर घर तिरंगा चाहते हैं जबकि हमारा पड़ोसी देश कश्मीर में हर घर मातम चाहता है। उन्होंने कहा कि नाकों-आतंकवाद वर्तमान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हम नाकों-आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस और हथियारों को रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित



करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी शांति भंग करने की साजिश रच रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल युवाओं को ड्रग्स और आतंकवाद की ओर आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उन्होंने 1,601 पुलिस कर्मियों और 514 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पिछले 30 सालों के दौरान जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी।

## ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को हिरासत में लिया, पात्रा चॉल जमीन घोटाले में सुबह से चल रही थी पूछताछ

मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को पात्रा चॉल मामले में लंबी पूछताछ के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को हिरासत में ले लिया। ईडी ने सुबह 7 बजे से राउत के घर पर पूछताछ कर रही है। पात्रा चॉल जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ की जा रही है। घर पर पूछताछ के बाद उन्हें ईडी के दफ्तार ले जाया जा रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले, ईडी ने संजय राउत के खिलाफ कई समन जारी किए थे, उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया गया था। उन पर ईडी को सहयोग नहीं



करने के भी आरोप लगे थे। राउत को मुंबई के एक 'चॉल' के पुनर्विकास और उनकी पत्नी एवं अन्य 'सहयोगियों' की संलिप्तता वाले लेन-देन में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने तलब किया था। राउत इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाने

के लिए एक जुलाई को मुंबई में एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 2 बार तलब किया था, लेकिन मौजूद संसद सत्र में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए पेश नहीं हुए।

ईडी के अधिकारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों के साथ रविवार सुबह सात बजे राउत के भांडुप उपनगर स्थित आवास 'मैत्री' पहुंचे और छापेमारी शुरू की। इस बीच, राज्यसभा सदस्य राउत ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध लेने

के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद ट्वीट किया, 'मैं दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की सौगंध खाता हूँ कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है।' उन्होंने लिखा, 'मैं मर जाऊंगा, लेकिन शिवसेना का साथ नहीं छोड़ूंगा।'

ईडी की छापेमारी के दौरान राउत के आवास के बाहर बड़ी संख्या में शिवसेना के समर्थक एकत्र हो गए और एजेंसी की कार्रवाई का विरोध किया। समर्थकों ने हाथों में भगवा रंग के झंडे और बैनर लेकर एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। राउत ने घर की खिडकी से समर्थकों की ओर हाथ हिलाया।

## लश्कर के 2 हाइब्रिड आतंकीयों को किया गिरफ्तार, हथियार और गोला-बारूद बरामद

0-सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां के बारामूला जिले से सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के दो हाइब्रिड आतंकीवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दहशतगर्दों के पास से दो पिस्तौल, पिस्तौल की दो मैगजीन और 11 कारतूस भी बरामद हुई हैं। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'सोपोर (बारामूला जिले) में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबन्धित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो आतंकीवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।'

प्रवक्ता के मुताबिक, आतंकीवादियों की गतिविधि के बारे में विशेष सूचना के आधार पर हादीपोर-रफियाबाद में सुरक्षा बलों की ओर से एक संयुक्त चौकी स्थापित की गई



थी। उन्होंने कहा, 'जांच के दौरान संयुक्त दल ने लोहिहामा लिंक रोड से हदीपोरा की ओर आ रहे दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, जिन्होंने संयुक्त नाका दल को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।' गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकीवादियों की पहचान तारिक अहमद वानी और

इशफाक अहमद वानी के रूप में हुई है, जो श्रीनगर के रंगरेथ के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है। इससे मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, बारामूला जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकीवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकीवादी पहचान इशराद अहमद के रूप में की गई है, जो बारामूला के पट्टन का रहने वाला था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के बिन्नेर क्षेत्र में आतंकीवादियों के मौजूद होने की सूचना के आधार पर शनिवार शाम को इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया।

बारामूला मुठभेड़ में लश्कर आतंकीवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकीवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक आतंकीवादी मारा गया है। अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इलाके में आतंकीवादियों की मौजूदगी को सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान शनिवार शाम बिनेर में सुरक्षाबलों और आतंकीवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सुरक्षाबलों के दल ने जैसे संदिग्ध स्थल पर घेराबंदी शुरू की वहां छिपे आतंकीवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। रातभर खामोशी के बाद तड़के फिर से शुरू हुई मुठभेड़ में प्रतिबन्धित आतंकीवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकीवादी मारा गया।

## लड़के ने यूट्यूब वीडियो देखकर बनाई शराब; पीते ही उल्टी करने लगा दोस्त, अस्पताल में भर्ती

तिरुवनंतपुरम (आरएनएस)। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 12 साल के लड़के ने यूट्यूब पर वीडियो को देखकर अंगूर से शराब बनाई, जिसे उसने अपने दोस्त को पिला दी। इसके उसकी तबीयत का काफी बिगड़ गई रिपोर्ट के मुताबिक, शराब पीने के बाद उसने उल्टी करनी शुरू कर दी। बिगड़ती तबीयत देख उसे चिराइनिकीयों में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह घटना शुक्रवार की हुई पुलिस ने

मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के दौरान लड़के ने बताया कि उसने अपने माता-पिता की ओर से खरीदे अंगूर का इस्तेमाल कर शराब बनाई थी। पिता की जमाने के मुताबिक, लड़के ने कहा कि उसने इसमें कोई अन्य एल्कोहोल नहीं मिलाया था। शराब बनाने के बाद उसने यूट्यूब पर देखे हुए एक वीडियो के अनुसार इसे एक बोटल में भरा और जमीन के नीचे दबा दिया। पुलिस ने बताया कि लड़के की मां को पता था कि वह शराब बनाने में हाथ आजमा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

## बिजली कंपनियों के घाटे के लिए मुफ्त की रेवड़ियां जिम्मेदार, सब्सिडी कल्चर पर फिर भड़के पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बढ़ते बकाया को एक आसन संकट के रूप में चिह्नित करते हुए वोट के लिए रेवड़ियां संस्कृति के अपने विरोध को और तेज कर दिया। वितरण क्षेत्र के सुधारों और एनटीपीसी की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि डिस्कॉम का उत्पादन कंपनियों पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी नहीं मिली है। वहीं, सरकारी विभागों और स्थानीय निकाय के बिजली बिल का भी भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली क्षेत्र का घाटा दोहरे अंकों में है जबकि विकसित देश इसे एकल अंक में रखने में



कामयाब रहे हैं। वितरण क्षेत्र के सुधारों के लिए एक पैकेज और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हम बहुत अधिक बिजली बर्बाद कर रहे हैं और इसके कारण हमें अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करना पड़ रहा है। उन्होंने राजनीति में रेवड़ी बांटने की संस्कृति (सब्सिडी कल्चर) के खिलाफ भी खूब सुनाया। वह इस महीने दूसरी बार इसके खिलाफ बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने 16 जुलाई को बुंदेलखंड

एक्सप्रेसवले का उद्घाटन करते हुए इसके खिलाफ बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस चेतवनी को तब और बढ़ा दिया जब मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने इस मुद्दे पर सुझाव दिया कि वित्त आयोग उन राज्यों को धन के प्रवाह को विनियमित करने पर विचार करे जो सब्सिडी दे रहे हैं।

सीजेआई ने कहा, समय के साथ हमारी राजनीति में गंभीर विकृतियां आ गई हैं। राजनीति में लोगों को सच बताने का साहस होना चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों में हम मुद्दों को कालीन के नीचे धकेलने की प्रवृत्ति देखते हैं। यह तत्काल तो राजनीतिक रूप से लाभदायक लग सकता है। लेकिन आज की इन चुनौतियों का समाधान नहीं करना हमारे बच्चों और

आने वाली पीढ़ियों पर बोझ डालने जैसा है। पीएम मोदी ने कहा, उत्पादन कंपनियों बिजली का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो रहा है। जिस तक एक घर बिना खाना पकाने के इंधन के बचने में मुद्दे पर सुझाव दिया कि वित्त आयोग उन राज्यों को धन के प्रवाह को विनियमित करने पर विचार करे जो सब्सिडी दे रहे हैं।

हालांकि पीएम ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को कई क्षेत्रीय दलों, खासकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली के मुद्दे पर निशाना बनाने के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने इसे आप का प्रचार अभियान बना दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रनीति एवं राष्ट्र-निर्माण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिजली देश के विकास के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों पर इन बिजली कंपनियों का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों की भी इन बिजली वितरण कंपनियों पर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक देवदारी बाकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों ने अभी तक बिजली कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपये की अपनी सब्सिडी प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं की है। राज्यों की तरफ से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली रियायती बिजली के एवज में यह सब्सिडी राशि दी जानी है।